



TEST REQUISITION FORM

Patient Details

First Name: MRS. AMBIKA Last Name: W/o KASAR

Age: 30yrs Gender: Male Female

Address: _____

Contact No.: _____

E-mail ID: _____

Referred by: _____ Contact No.: _____

For Maternal Screening - Date of Birth:

Weight: _____ kg. Height: _____ ft _____ inches, LMP _____ Last Ultrasound Report

Billing Information

Client Name: Health medicals

Client ID: SRRASHIK 1622@gmail

Total Amount: Com

Amount Received: _____ Receipt No.: _____

Amount Balance / Due: _____

Payment via: CASH CHEQUE CREDIT

Specimen Type Received (For MolQ use only)

<input type="checkbox"/> Serum	<input type="checkbox"/> Bone Marrow	<input type="checkbox"/> CSF
<input type="checkbox"/> Plasma: EDTA/FL/CIT	<input type="checkbox"/> FN Aspirate	<input type="checkbox"/> Fluid
<input type="checkbox"/> SST	<input checked="" type="checkbox"/> Tissue Formalin	<input type="checkbox"/> BAL
<input type="checkbox"/> W. Blood EDTA	<input type="checkbox"/> Paraffin Block	<input type="checkbox"/> Sputum
<input type="checkbox"/> W. Blood Fluoride	<input type="checkbox"/> Smear	<input type="checkbox"/> Urine
<input type="checkbox"/> W. Blood Heparin	<input type="checkbox"/> Slide (H&E)	<input type="checkbox"/> Stool
<input type="checkbox"/> W. Blood Sodium Citrate	<input type="checkbox"/> Pus	<input type="checkbox"/> Swab
	<input type="checkbox"/> Blood Culture Bottle	<input type="checkbox"/> Others

Other Sample Type / Source: (2) 12

Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Date: _____ Time: _____

Patient ID: _____ No. of vials/container: _____

1	2
---	---

Signature of Accessioning Officer(s): _____

Test Name/Test Code
(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)

GB -> AFB
PCR
HPE

Instructions to Laboratory/Clinical Information

Sent Specimen Information

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Sample / Vial Type	Vial ID Barcode
	<u>2 Containers</u>

Total No. of Vials/Container: _____

Specimen Collection Information

Date: 24/1/2018 Time: _____

Fasting: Yes No Fasting Period: _____ Hrs.

Collection by: _____

Urine Volume: _____ ml Hrs.

Patient Consent: I hereby authorize MolQ Laboratory to use and share with affiliates my personal information including but not limited to any condition / disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent of the applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publicly available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MolQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to this access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

Disclaimer: For any test/service related complain/query please contact MolQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Uttarakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the Test requested.

रोगी सहमति : मैं मोल्क्यु प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि यह जानकारी उस सीमा तक साझा की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ना कराई जाए। इसके पश्चात मैं प्रयोगशाला को देवारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जाँच के लिए उपलब्ध करवाया था, उसमे से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कमी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए, जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यु प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारियों को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति : किसी भी जाँच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यु प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड है, किसी भी जाँच का मूल्य उसके दिए अधिकतम फ्लुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।

Signature: (Signature)
Patient/Client/Doctor's Signature
Date: 24/1/2018



ATRI NURSING HOME

(Advanced Obst. & Gynae Centre)

Sonepat Road, Rohtak
www.atrihospital.com

Ph. : 01262-650198
Mob. : 086077-74555

Dr. Sangeeta Atri
M.B.B.S. M.D. (Obst. & Gynae)
(Reg. No. : HN 4003)

- Painless Normal Delivery
- Laparoscopic Surgeries
- Infertility

OPD Timing - Monday to Saturday
Morning - 11.00 AM to 1.30 PM
Evening - 4.00 PM to 5.00 PM
Sunday OPD Closed

Name Ambika S/o, D/o, W/o Kesar Age 30y Date 23.1.18

Dariga Ngn
857877331

M.P. x 13 years

P₁ (01N)

P₁ - NVD female child
(abnorm) 2 years

LMP - 12.1.18
MH - 3-4 days
(since a year) 45-60-90

PMI - 4-5 days
28-30

wants to conceive

Ad
HSA
Hensen culture
(3-5 day of abnorm)
C. Haemogram (Hb - 11.7 g/dl)

Usg - ut (midline) - PCOD
2 Menorrhagic cycle (Dry)
Biodrug (R) - P.O.D
Prolactin - 6.60
TSH - 1.890

Ad
TB Follicle 5-A
F-4 E Sept

D₃ FSH, LH, E₂
Serum testosterone
DHAS

Tab m) later
P - 130
- 100

Pre-natal CS - HMC
MCA
PCR
H₂O₂

Serum Insulin - P.O.
A usg - R
- LTT
(7/11/18)

अत्री नर्सिंग होम

सोनीपत रोड, रोहतक

Avoid consultation(s) over phone. In case of emergency report to hospital
Contents of the prescription are not valid for Medico Legal Purpose